

**\*प्रेस नोट सराहनीय कार्य जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 27.01.2023\***

**\*थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण कर अभियुक्त/मृतक का दोस्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री राजीव कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण कर हत्याभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** अवगत कराना है कि निशान सिंह पुत्र मंगल सिंह नि0 ग्राम रसूलपुर भंवर उम्र 21 वर्ष के दिनांक 07.01.2023 को बाजार से सामान लाने को कह कर घर से निकलने व वापस ना आने/लापता होने के संबंध में उसके पिता मंगल सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर दिनांक 09.01.2023 को थाना मंडी धनौरा पर गुमशुदगी दर्ज की गई। इसी क्रम में दिनांक 25.01.2023 को निशान सिंह का शव गंगा किनारे रेत में मिलने पर थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0स0 59/23 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मंडी धनौरा को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त घटना का खुलासा करते हुए थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ सूरज पाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर भंवर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को सीपिया घाट से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर रजि0न0 UP20W 2858 बरामद हुई।

**\*पूछताछ विवरण\*:-** पूछताछ पर अभियुक्त सोनू उर्फ सूरजपाल द्वारा बताया गया कि मैं और निशांत पुराने दोस्त व नशे के आदि हो गए थे। एक दिन मैंने निशान को अपनी पत्नी से बात करते देखा तो मुझे शक हो गया कि निशान व मेरी पत्नी के बीच अवैध संबंध है जिसको लेकर मैं निशान को मारना चाहता था। दिनांक 07.01.2023 को मेरी पत्नी घर पर नहीं थी दादा दादी के घर चली गयी थी तो मैंने निशान को दावत के बहाने अपने घर बुलाया और और निशान को काफी कच्ची शराब पिलाई और मैंने बहुत कम पी। मैंने निशान को इतनी शराब पिला दी कि वह धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया और तब तक कच्ची शराब पिलाता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके मरने के पश्चात मैंने अपनी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर पर उसके शव को लादकर गंगा किनारे डालकर वही रेत में छिपा दिया।



**\*गिरफ्तार अभियुक्त\*-**

1. सोनू उर्फ सूरज पाल सिंह पुत्र गुरमेज सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर भंवर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा

**\*बरामदगी\*:-**

1. घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर रजि0न0 UP20W 2858 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

2. उ0नि0 रामविलास शर्मा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

3. का0 सागर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा।

4. का0 1142 अभिषेक कुमार थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

**\*PRO CELL AMROHA\***